



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2004/भाद्र 2, 1925

No. 89]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2004/MAGHA 2, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

क.अ. 111(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 244 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2003 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में वालजाह तालुक के रानीपेट गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (106.400 कि०मी० पर) और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 (143.500 कि०मी० पर) को जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अधीन उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी वित्तीय गणों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (106.490 कि०मी० पर) और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 (143.500 कि०मी० पर) को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का संक्षिप्त वर्णन

जिला - बैरलोर
गोब रानीपेट

तालुक - वल्लजाह

क्र.सं	वार्ड/ब्लॉक सं०	सर्वेक्षण सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामी अथवा संबद्ध हितवद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बी/37	25/1ए5बी	निजी	शुष्क	75	मीरा पत्नी ए.एन सेलवाराज
		25/1ए6बी	निजी	शुष्क	56	जी तमिलरासु पुत्र गोविन्दराज
		25/1ए7बी	निजी	शुष्क	58	एम.के.कन्नन पुत्र कुप्पुसामी
		25/7	निजी	शुष्क	80	देवगी गोपाल पत्नी गोपाल
		25/5	निजी	शुष्क	63	डी राजशेखर पुत्र ए.के.धनपाल
		25/6	निजी	शुष्क	65	डी रणजीत कुमार पुत्र ए.एन देवकुमार
		25/4	निजी	शुष्क	88	1. देवगी गोपाल, पत्नी गोपाल 2. एस मीरा पत्नी ए.एन सेलवाराज 3. जी तमिलरासु पुत्र गोविन्दराज 4. एम.के.कन्नन पुत्र कुप्पुसामी 5. डी राजशेखर पुत्र ए.के.धनपाल
		25/1ए1बी	निजी	शुष्क	343	रानीपेट्टई रासायनिक इंजीनियरिंग लि०
		25/2बी	निजी	शुष्क	73	पी.एम अब्दुल रफी, पुत्र पी एन संसुदीन
		25/3	निजी	शुष्क	199	सामी मारियल पुत्र अब्दुल रसाक
		26/1बी	निजी	शुष्क	900	श्रीमती कुमारसामी, न्यासी कनैया चेट्टी
		26/2बी	निजी	शुष्क	160	श्रीमती कुमारसामी, न्यासी कनैया चेट्टी
2.	बी/47	3/1बी	निजी	शुष्क	1726	अब्दुल रहीम सयाबु पुत्र सौकर, आर एस अब्दुल रहीम सयाबु
		3/2बी	निजी	शुष्क	64	अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रहीम
		5/1ए	निजी	शुष्क	3087	सैयद बात्वा पुत्र सैयद बद रसीन
		7/4ए2	निजी	शुष्क	8	शाजीदा पत्नी शलाऊदीन
		7/4बी2	निजी	शुष्क	51	योगीश्वरन पुत्र सरवानन
		7/4सी2	निजी	शुष्क	48	वासन्ती पत्नी वी मास्करन
		7/4डी2	निजी	शुष्क	95	मीनाशियाम्मल पत्नी सुब्रमणी
		7/4ई2	निजी	शुष्क	103	मुरुगा जोति पुत्र मणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8/2बी	निजी	नम	463	पेरूमल पुत्र कुपुसामी
		8/3सी1ए	निजी	नम	578	1. ई.जी.गणपति 2. पञ्चवानन
		8/3सी1बी	निजी	नम	72	पुवनेस्वरी पत्नी के रामचन्द्रन
		8/4ए1बी	निजी	नम	7	पुवनेस्वरी पत्नी के रामचन्द्रन
		8/4ए1ए	निजी	नम	80	पूपासन पुत्र विश्वनाथ चैतियार
		8/4बी2	निजी	नम	40	मणिमेगलई पत्नी अशोकन
		8/4सी2	निजी	नम	40	शेखर पुत्र पंचाचरण
		8/4ए2बी	निजी	नम	40	मंजुल पत्नी अल्लुगम
		8/5ए2	निजी	नम	85	पी कलईसेलवी पत्नी भीमराज
		8/5बी2	निजी	नम	280	कृष्णामूर्ति पुत्र गंगाधर मुदलियार
		10/1	निजी	नम	1245	कृष्णामूर्ति पुत्र गंगाधर मुदलियार
		10/2	निजी	नम	140	कृष्णामूर्ति पुत्र गंगाधर मुदलियार
3.	बी/25	2/1बी	निजी	नम	209	1. सखर 2. सैयद अहमद बत्ता पुत्र सैयद सुल्तान
		2/2ए2	निजी	नम	68	ईस्वरन कोइल न्यासी, कन्नन पुत्र रथिना मुदलियार
		2/2बी	निजी	नम	480	नाजर ओसिया दरगाह मुथुवल्ली सैयद अशरफ बतवा
		4/4बी	निजी	नम	271	दामोदरन पुत्र अय्यादुरई
		4/5बी	निजी	नम	122	रथिना मुदलियार पुत्र कुमार मुदलियार
		4/6बी	निजी	नम	59	1. गंगाधरन 2. अल्लुगम पुत्र कृष्णन
		10/2ए2	निजी	नम	43	विशालत्ती पत्नी वीरसामी
		10/2बी2	निजी	नम	23	आवुक्त, रानीपेट
		10/3ए2	निजी	नम	7	आवुक्त, रानीपेट
		10/3डी2	निजी	नम	59	चारु कंपनी
		10/4बी	निजी	नम	119	बासी कंपनी
		10/5बी	निजी	नम	105	राजी कंपनी
		10/6बी	निजी	नम	97	अल्लुमिगु देवेन्द्र ईस्वरन कोइल, न्यासी, कन्नन
		10/7बी	निजी	नम	74	कुप्पाम्मल पत्नी सोमसुंदर मुदलियार
		10/8बी	निजी	नम	74	पत्ताम्मल पत्नी थंगावेल मुदलियार
		10/9बी	निजी	नम	81	दुरई कन्नु पुत्र नतेशन
		10/10ए2	निजी	नम	75	महस्वनिशा पत्नी जॉन बाशा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10/10बी2	निजी	नम	22	जगदीसन पुत्र भनिका मुदलियार
		10/11/ए1	निजी	नम	22	गणेशन पुत्र शिवप्रकासन
		10/11/ए2	निजी	नम	41	सैयद याहुफ पुत्र सैयद इब्राहिम
		10/11/बी2	निजी	नम	42	सैयद याहुफ पुत्र सैयद इब्राहिम
		15/1ए1	निजी	नम	75	पंगजाम्मल पत्नी सुंदराजुलू नायडू
		15/7ए1	निजी	नम	171	अंजनयन पुत्र वरदापिल्लै
		15/8ए	निजी	नम	74	पंगजाम्मल पत्नी सुंदराजुलू नायडू
		15/9ए	निजी	नम	118	अंजनयन पुत्र वरदापिल्लै
		16/4ए	निजी	नम	67	पाचइयाम्मल पत्नी थंगावेलू
		16/5ए	निजी	नम	68	पी वनजा पत्नी पाचवनन
		16/6ए	निजी	नम	83	माणिकम, पुत्र जगदीशन
		16/7ए	निजी	नम	20	शिवप्रकासन, पुत्र नतेशन
		16/7बी	निजी	नम	88	शिवप्रकासन, पुत्र नतेशन
4.	डी/26	2/2बी	निजी	नम	110	पी गोपाल पुत्र पैरुमल नायडू
		2/3ए2	निजी	नम	56	कामात्ती बाई, पत्नी कृष्णाजी राव
		2/3बी2	निजी	नम	64	भवानी बाई पत्नी कोदण्डपानी राव
		2/3सी2	निजी	नम	70	विजयलक्ष्मी बाई पत्नी टी.बी.जी बुगदर राव
		2/4ए2	निजी	नम	35	राजेन्द्रन पुत्र श्रीनिवासन
		2/4ए	निजी	नम	32	1. स्वर्णसिंह पुत्र इथिराज 2. जेयन्ति पत्नी स्वर्णसिंह
		2/5बी	निजी	नम	100	कन्नियाम्मल पत्नी शिवलिंगम
		2/6बी	निजी	नम	220	कन्न पुत्र रथिनाम
		2/7बी	निजी	नम	100	सदा बाई, पत्नी थंगावेल
		2/8/ए2	निजी	नम	30	जुल्लिशबी पत्नी शाक अली शयाबू
		2/8/बी2	निजी	नम	86	जॉन बाशा पुत्र सैयद इब्राहिम
		2/8/सी2	निजी	नम	80	जुल्लिशबी पत्नी शाक अली शयाबू
		2/9/बी	निजी	नम	132	अहमद बाशा, पुत्र इस्माइल शयाबू
		2/10/बी	निजी	नम	67	कन्नन पुत्र रथिना मुदलियार
		2/11/बी	निजी	नम	64	गोविन्दाम्मल पत्नी थंगावेलू पिल्लै
		3/6बी	निजी	नम	360	गोविन्दाम्मल पत्नी थंगावेलू पिल्लै
		3/9/बी	निजी	नम	80	नतेशन, पुत्र नाथमुनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3/10/बी	निजी	नम	170	पदमावती पत्नी शनमुगा नायकर
		3/13/बी	निजी	नम	100	दुर्दैकन्नु पुत्र नतेशन
		3/14/बी	निजी	नम	62	पुनिथावति, पत्नी शनमुगम
		3/15/बी	निजी	नम	70	ए.कुमारी पत्नी अरुमुगम
		3/16/बी	निजी	नम	22	दुर्दैकन्नु पुत्र नतेशन
		9/4ए	निजी	नम	838	दुर्दैकन्नु पुत्र नतेशन
		9/6ए	निजी	नम	2480	गोविन्द पिल्लै, पुत्र नारायण पिल्लै
		9/7ए	निजी	नम	242	रथिनाम, पत्नी गोविन्द पिल्लै
		11/1ए	निजी	शुष्क	570	नागनथिरा राव, पुत्र गोपाल राव
		11/2	निजी	शुष्क	2305	पेरियाकांचीपुरम उच्चाकिट्टम नरेन्दरीरा दास
		11/3	निजी	नम	856	सावित्रुसा पत्नी अहमद बासा
		11/4	निजी	नम	202	एम मुनिवर उत्तान श्याबु पुत्र एम मुहमद सलीम
		11/5	निजी	नम	1045	एम मुनिवर उत्तान श्याबु पुत्र एम मुहमद सलीम
		11/6ए	निजी	नम	1105	1. मुथान पुत्र मुथारसन 2. एम मुनावर श्याबु पुत्र एम मुहमद सलीम
		11/8ए	निजी	नम	259	जबलक्ष्मी पत्नी मुनिसामी पिल्लै
		11/9ए	निजी	नम	570	जबलक्ष्मी पत्नी मुनिसामी पिल्लै
		11/10	निजी	नम	2210	जगदीशन पुत्र माणिकम मुत्तलियार
		14/1ए	निजी	नम	105	गोपाल पत्नी वेरुमल नायडू
		14/2ए	निजी	नम	70	रत्नियम पुत्र कुमारसामी
		14/3ए	निजी	नम	90	कन्निथाम्बल पत्नी शिवलिंगा मुत्तलियार
		14/8ए	निजी	नम	175	अन्नामलाई आचार्य, पुत्र अम्पादुर्दै आचार्य
		15/1ए	निजी	नम	250	1. एन कृष्णन 2. एन नारायणन 3. एन कार्तिकेयन पुत्र बालसुन्दर नायकर
		15/4ए	निजी	नम	85	समोवरन पुत्र अम्पादुर्दै
		15/5ए	निजी	नम	180	पुल्ली शाबी पुत्र शलिक जौली श्याबु
		15/6ए	निजी	नम	410	पुल्ली शाबी पुत्र शलिक जौली श्याबु
		15/11ए	निजी	नम	220	शस्त्रुनिशा पत्नी अहमद बासा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		15/13	निजी	नम	1288	कुल्लिनथियाम्मल कोइल न्यासी कन्नन
		15/14	निजी	नम	180	कुल्लिनथियाम्मल
		15/15ए	निजी	नम	270	शरबुन्निशा पत्नी अहमद बाशा
		15/15सी	निजी	नम	330	शरबुन्निशा पत्नी अहमद बाशा
		18/1	निजी	शुष्क	3100	सलीम पुत्र कुशार हुस्सान
		18/3ए	निजी	शुष्क	1160	<ol style="list-style-type: none"> 1. सलीम पुत्र कुशार हुस्सान 2. जगीधर बेगम पत्नी मलिक एम मुहम्मद सलीम 3. जीनथ बेगम पत्नी अहमद हुस्सान 4. मरियम भानू पत्नी मुहम्मद अनवर शरीफ 5. अहायशा भानू पत्नी अब्दुल हलीम शयाबू 6. मल्लाक मुनावर हुसन शयाबू पुत्र एम आजी मुहम्मद सलीम

[फ़. सं. भारताप्र/13011/4-IV//2002-पीआई]

ए. बी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2004

S.O. 111(E).—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.244(E), dated the 27th February, 2003, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, sSection 3, sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of construction of bypass connecting National Highways No.4 (at Km.106.400) and National Highway No.46 (at Km.143.500) in village Ranipet of Walajah taluk in the district of Vellore in the State of Tamil Nadu;

AND WHEREAS, in pursuance of sub section of (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW, THEREFORE, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

AND FURTHER, on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (2) of section 3D of the said Act.

SCHEDULE

Brief Description of land required for construction of bypass connecting National Highway No.4 (at KM.106/400) and National Highway No.46 (at Km.143/500) in the State of Tamil Nadu.

DISTRICT: VELLORE

TALUK: WALLAJAH

Village : Ranipet

Sl. No.	Ward / Block number	Survey number	Type of land	Nature of land	Area of the land in Sq. Mtrs.	Name of the owner or interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	B/37	25/1A5B	Private	Dry	75	Meera w/o.A.N.Selvaraj
		25/1A6B	Private	Dry	56	G.Tamilarasu S/o.Govindaraj
		25/1A7B	Private	Dry	58	M.K.Kannan S/o.Kuppusamy
		25/7	Private	Dry	80	Devagi Gopal W/o.Gopal
		25/5	Private	Dry	63	D.Rajasekar S/o.A.K.Dhanapal
		25/6	Private	Dry	65	D. Ranjith kumar S/o.A.N.Devakumar
		25/4	Private	Dry	88	1. Devagi Gopal, w/o.Gopal 2. S.Meera w/o.A.N.Selvaraj 3. G.Tamilarasu S/o.Govindaraj 4. M.K.Kannan S/o.Kuppusamy 5. D.Rajasekar S/o.A.K.Dhanapal
		25/1A1B	Private	Dry	343	Ranipettai Chemical Engineering Ltd.,
		25/2B	Private	Dry	73	P.M.Abdul Raffi, S/o.P.N.Sansutheen
		25/3	Private	Dry	199	Sami Mariyal S/o.Abdul Rasak
		26/1B	Private	Dry	900	Srimathi Kumarasamy, trustee Kannaiya Chetty
		26/2B	Private	Dry	160	Srimathi Kumarasamy, trustee Kannaiya Chetty
2.	B/47	3/1B	Private	Dry	1726	Abdul Rahim Sayabu S/o.Sawkar, R.S.Abdul Rahim Sayabu.
		3/2B	Private	Dry	64	Abdul Kadar s/o.Abdul Raheem
		5/1A	Private	Dry	3087	Syed Batcha S/o.Syed Bath Roodeen
		7/4A2	Private	Dry	8	Shajeetha W/o.Shalaudeen
		7/4B2	Private	Dry	51	Yogeeswaran s/o.Saravanan
		7/4C2	Private	Dry	48	Vasanthi W/o.V.Baskaran
		7/4D2	Private	Dry	95	Meenashiammal W/o.Subramani
		7/4E2	Private	Dry	103	Muruga Jothi S/o.Mani

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8/2B	Private	Wet	463	Perumal S/o.Kuppusamy
		8/3C1A	Private	Wet	578	1. E.G.Ganapathi 2. Pachavannan
		8/3C1B	Private	Wet	72	Puvaneswari W/o.K.Ramachandran
		8/4A1B	Private	Wet	7	Puvaneswari w/o.K.Ramachandran
		8/4A1A	Private	Wet	80	Poopalan S/o.Viswanatha Chettiyar
		8/4B2	Private	Wet	40	Manimegalai w/o.Ashokan
		8/4C2	Private	Wet	40	Sekar S/o.Panchacharam
		8/4A2B	Private	Wet	40	Manjula W/o.Arumugam
		8/5A2	Private	Wet	85	P.Kalaiselvi W/o.Beemaraaj
		8/5B2	Private	Wet	280	Krishnamurthy S/o.Gangadhara Mudaliyar
		10/1	Private	Wet	1245	Krishnamurthy S/o.Gangadhara Mudaliyar.
		10/2	Private	Wet	140	Krishnamurthy S/o.Gangadhara Mudaliyar.
3.	D/25	2/1B	Private	Wet	209	1. Sardhar 2. Syed Ahamed Batsha Sons of Syed Sultan
		2/2A2	Private	Wet	68	Eswaran Koil Trustee, Kannan S/o.Rathina Mudaliyar
		2/2B	Private	Wet	480	Nazar Awliya Dharga Muthuvalli Syed Asharath Batcha
		4/4B	Private	Wet	271	Dhamodaran S/o.Ayyadurai
		4/5B	Private	Wet	122	Rathina Mudaliyar, S/o.Kumar Mudaliyar
		4/6B	Private	Wet	59	1. Gangadaran 2. Arumugam sons of Krishnan
		10/2A2	Private	Wet	43	V/shalatshi W/o.Veerasamy
		10/2B2	Private	Wet	23	Commissioner, Ranipet
		10/3A2	Private	Wet	7	Commissioner, Ranipet
		10/3D2	Private	Wet	59	Parry company
		10/4B	Private	Wet	119	Parry Company
		10/5B	Private	Wet	105	Parry Company
		10/6B	Private	Wet	97	Aruhmigu Devendra Eswaran Koil, Trustee, Kannan
		10/7B	Private	Wet	74	Kuppammal W/p.Somasundara Mudaliyar.
		10/8B	Private	Wet	74	Patchammal W/o.Thangavel Mudaliyar.
		10/9B	Private	Wet	81	Durai Kannu S/o.Natesan
		10/10A2	Private	Wet	75	Maharunnisha W/o.John Basha

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10/10B2	Private	Wet	22	Jegadeesan S/o.Manikka Mudaliyar
		10/11/A1	Private	Wet	22	Ganesan S/o.Sivapragasam
		10/11/A2	Private	Wet	41	Syed Yahuf S/o.Syed Ibraheem
		10/11/B2	Private	Wet	42	Syed Yahuf S/o.Syed Ibraheem
		15/1A1	Private	Wet	75	Pangajammal W/o.Sundarajulu Naidu
		15/7A1	Private	Wet	171	Anjaneyan S/o. Varadapillai
		15/8A	Private	Wet	74	Pangajammal W/o.Sundarajulu Naidu
		15/9A	Private	Wet	118	Anjaneyan S/o.Varada Pillai
		16/4A	Private	Wet	67	Pachaiammal W/o.Thangavelu
		16/5A	Private	Wet	68	P.Vanaja W/o.Pachavannan
		16/6A	Private	Wet	83	Manickam, S/o.Jegadeesan
		16/7A	Private	Wet	20	Sivaprakasam, S/o.Natesan
		16/7B	Private	Wet	88	Sivaprakasam, S/o.Natesan
4.	D/26	2/2B	Private	Wet	110	P.Gopal S/o.Perumal Naidu
		2/3A2	Private	Wet	56	Kamatchi bai, W/o.Krishnajee Rao,
		2/3B2	Private	Wet	64	Bhavani Bai W/o.Kothandapani Rao
		2/3C2	Private	Wet	70	Vijayalakshmi Bai, W/o.T.V.G.Bugthar Rao.
		2/4A2	Private	Wet	35	Rajendran, S/o.Srinivasan
		2/4B2	Private	Wet	32	1. Swaransingh S/o.Bthiraj 2. Jeyanthi W/o.Swaransingh
		2/5B	Private	Wet	100	Kanniammal W/o.Sivalingam
		2/6B	Private	Wet	220	Kannan, S/o.Rathinam
		2/7B	Private	Wet	100	Rada Bai, W/o.Thangavel
		2/8/A2	Private	Wet	30	Jullishabi w/o.Shak Ali Shayabu
		2/8/B2	Private	Wet	86	John Basha S/o.Syed Ibrahim
		2/8/C2	Private	Wet	80	Jullishabi, W/o.Shak Ali Shayabu
		2/9/B	Private	Wet	132	Ahamed Basha, S/o.Ismail Shayabu
		2/10/B	Private	Wet	67	Kannan S/o.Rathina Mudaliyar
		2/11/B	Private	Wet	64	Govindammal, W/o.Thangavelu Pillai
		3/6B	Private	Wet	360	Govindammal, W/o.Thangavelu Pillai
		3/9/B	Private	Wet	80	Natesan, S/o.Nathamuni

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3/10/B	Private	Wet	170	Padmavathi, W/o.Shanmuga Naicker
		3/13/B	Private	Wet	100	Duraikannau S/o.Natesan
		3/14/B	Private	Wet	62	Punithavathi, W/o.Shanmugam
		3/15/B	Private	Wet	70	A. Kumari W/o.Arumugam
		3/16/B	Private	Wet	22	Duraikannu, S/o.Natesan
		9/4A	Private	Wet	838	Duraikannu, S/o.Natesan
		9/6A	Private	Wet	2480	Govinda Pillai, S/o.Narayana Pillai
		9/7A	Private	Wet	242	Rathinam, W/o.Govinda Pillai
		11/1A	Private	Dry	570	Naganthira Rao, S/o.Gopal Rao
		11/2	Private	Dry	2305	Periyakanchipuram Uthakittam Narendrera Das
		11/3	Private	Wet	856	Shaminusha W/o.Ahamed Basha
		11/4	Private	Wet	202	M.Munivar Ushan Shayabu S/o.M.Muhamed Saleem
		11/5	Private	Wet	1045	M.Munivar Ushan Shayabu, S/o.M.Muhamed Saleem
		11/6A	Private	Wet	1105	1. Muthan, S/o.Mutharasan 2. M.Munavar Shayabu S/o.M.Muhamed Saleem
		11/8A	Private	Wet	259	Jayalakshmi W/o.Munisamy Pillai
		11/9A	Private	Wet	570	Jayalakshmi W/o.Munisamy Pillai
		11/10	Private	Wet	2210	Jegadeesan, S/o.Manickam Mudaliyar
		14/1A	Private	Wet	105	Gopal, W/o.Perumal Naidu
		14/2A	Private	Wet	70	Rathinam S/o.Kumarasamy
		14/3A	Private	Wet	90	Kanniyammal W/o.Sivalinga Mudaliyar
		14/8A	Private	Wet	175	Annamalai Achari, S/o.Appadurai Achari
		15/1A	Private	Wet	250	1. N.Krishnan 2. N.Narayanan 3. N.Karthikeyan sons of Balasundara Naicker
		15/4A	Private	Wet	85	Dhamodharan, S/o.Ayyadurai
		15/5A	Private	Wet	180	Jolly Shabi S/o.Shantik Jolly Shayabu
		15/6A	Private	Wet	410	Jolly Shabi S/o.Shantik Jolly Shayabu
		15/11A	Private	Wet	220	Shanmuga W/o.Ahamed Basha

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		15/13	Private	Wet	1286	Kullinthiammal Koil Trustee Kannan
		15/14	Private	Wet	180	Kullinthiammal
		15/15A	Private	Wet	270	Sharbunnisha W/o.Ahamed Basha
		15/15C	Private	Wet	330	Sharbunnisha W/o.Ahamed Basha
		18/1	Private	Dry	3100	Saleem S/o.Kushar Hussan
		18/3A	Private	Dry	1160	1. Saleem S/o.Kushar Hussan 2. Jagidhar Bhegam W/o.Malik M.Muhammed Saleem 3. Jeenath Bhegam w/o.Ahamed Hussan 4. Mariyam Bhanu W/o.Muhammed Anvar Sharif 5. Ahayasha Bhanu W/o.Abdul Haleem Shayabu 6. Mallak Munavar Husan shayabu S/o.M.Aajee Muhammed Saleem

[F. No. NHA/13011/4-IV/2002-PI]

A. V. SINGH, Secy.